

सिपेट द्वारा 01 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक सिपेट द्वारा

## “स्वच्छता पखवाड़ा” का अनुपालन

### “स्वच्छता संदेश”

भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देश भर में 02.10.2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। यह भारत सरकार द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है, इस अभियान के तहत प्रमुख गतिविधियों में, खुले में शौच का उन्मूलन करना, अशुभ शौचालयों को फ्लश शौचालयों में फ्लश शौचालय के रूप में बदलना, हाथ से मैलों की सफाई करने का उन्मूलन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ स्वच्छता के अभ्यासों के बारे में लोगों में व्यावहारिक परिवर्तन लाना जैसे सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं।

स्वच्छता अभियान केवल एक बार की घटना नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में स्वास्थ्य अभ्यास को अंतर्गहण करने का एक निरंतर कोशिश है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा की गई है। अब नागरिक, जिनमें विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों एवं संस्थानों के साथ आम जनता, छात्र, सरकार / निजी संगठनों से शामिल कर्मचारियां पूरे देश में स्वच्छता गतिविधियों में प्रभावी भागीदार बन रहे हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा देखे गए “स्वच्छ भारत” के सपने को एक आकार मिलना प्रारंभ हो गया है।

सिपेट स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान के परिसरों और सामुदायिक पार्कों, स्कूलों आदि जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के नियमित सफाई अभियान के अलावा, विभिन्न सिपेट केन्द्रों के संबंधित इलाके/पंचायत/जिला में स्थित सरकारी स्कूलों में 25 संख्या में लड़कियों के शौचालय का निर्माण करके “स्वच्छ विद्यालय” की दिशा में सिपेट ने योगदान दिया है। इन शौचालयों संबंधित सिपेट केन्द्रों द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है और संचालित किया जा रहा है।

इस वर्ष भी, भारत भर के सिपेट केन्द्र अनुमोदित स्वच्छता पखवाड़ा कार्य योजना के अनुसार गतिविधियां करने हेतु 01.09.2020 से 15.09.2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा का अनुपालन कर रहे हैं।

\*\*\*\*\*